## **FINANCIAL EXPRESS**

ALCHEMIST CORPORATION LIMITED CIN: L74899DL1993PLC055768 Regd. Office: R-4, Unit 103, First Floor, Khirki Extention Main Road. Malviya Nagar, New Delhi-110017 nfo@alchemist-corp.com | 011-29544474 Pursuant to Regulation 29 read with Regulation

47 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 notice is hereby given that the 02nd meeting o Board of Directors of the Company (for the Financial Year 2021-2022) Scheduled to be held on Tuesday, the 10th day of August, 2021 at 02:30 P.M. at the Registered office of the Company situated at R-4, Unit 103 First Floor Khirki Extention Main Road, Malviya Naga New Delhi-110017, Inter-alia, to consider approve and take on record of the onsolidated and Standalone Un-audited inancial Results for the quarter ended June 30 2021 and any other matters which are necessary with the permission of the chair. Further, trading window for dealing is securities of the Company by the directors, officers/designated persons of the company is closed with effect from July 1 2021 and shall remain closed till the completion of 48 hours after the declaration of Standalone and Consolidated Un-audited Financial Results of the Company for the guarter ended on June 30 2021 in pursuant to SEBI (Prohibition of Inside

frading) Regulations, 2015. This intimation is also available at the website of the Company i.e. www.alchemist-corp.com and the site of Bombay Stock Exchange i.e www.bseindia.com where the securities of Company are listed

By Order of the Board For Alchemist Corporation Limited Sohan Lal (Managing Director) DIN: 03322557 C-4/511, Rakesh Marg, Gulmohar Enclave Nehru Nagar-3, Ghaziabad 201 001 Place: New Delhi Date: 27/07/2021

#### Before the Central Government Registrar of Companies. In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008

and Rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009. In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) and in the matter of HSK SOURCE PARTNER GLOBAL LLP having its registered office at 76, Basement, Okhla Industrial Estate, Phase - III, Delhi - 110020

Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Delhi under Section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act. 2008 seeking permission to change its Registered Office from 'NCT of Delhi' to the state of "KARNATAKA". Any person whose interest is likely to be affected

by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies, Delhi within 21( Twenty One) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above. For and on behalf of

HSK SOURCE PARTNER GLOBAL LLP HARJEET SINGH KAKKAR

(Designated Partner) Address: 314, Elite Belathur, Kadugodi Post Date: 27/07/2021 Bangalore-560067 Place: Delhi

Account

Borrower &

#### पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank ...the name you can BANK upon I

General Services Administration Division Head Office, Plot No. 4, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110075 Tel: 011 28044402; E-mail: maintenance@pnb.co.in

### NOTICE INVITING EMPANELMENT APPLICATION

Punjab National Bank, Head Office, General Services Administration Division (Ph: 011 - 28044402, Email ld: maintenance@pnb.co.in) invites Application for Empanelment of Electrical Safety auditors/ auditing agencies for carrying out comprehensive Electrical Safety Audit of branches / offices/ ATM sites under jurisdiction of Head Office and Zonal Office: Delhi.

The empanelment forms and other details can be obtained from the website www.pnbindia.in

Last Time & date of submission of empanelment application is up to 1500 Hrs on 10.08.2021.

Any corrigendum/ clarification in respect of above said work shall be released only at our website www.pnbindia.in which may be visited regularly.

Chief Manager

SUPERKISAN E-COMMERCE PRIVATE LIMITED

a) Web link: https://ibbi.gov.in/home/downloads

#### FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT [Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SUPERKISAN E-COMMERCE PRIVATE LIMITED RELEVANT PARTICULARS

Name of Corporate Debtor

Date of incorporation of Corporate Debtor 30 10 2018

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

12	Date of incorporation of Corporate Deptor	30.10.2018
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies- Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	U74999DL2018PTC341332
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	M-3, LGF, Green Park Extension, New Delhi-110016
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	23.07.2021 (Date of Receipt of Order: 26.07.2021)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	19.01.2022
8.	Name and Registration number of the insolvency professional acting as Interim Resolution Professional	APOORV SARVARIA Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N01073/2020-2021/13444
9.	Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board	Address: Suite No. 1, 19 Park Area, Karol Bagh, New Delhi-110005. Email: sarvaria@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional	Address: Suite No. 1, 19 Park Area, Karol Bagh, New Delhi-110005. Email: cirp.superkisanecommerce@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	06.08.2021
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional	Not Applicable
13.	Names of insolvency professionals identified	Not Applicable

 b) Details of authorized representatives are available at: Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of SUPERKISAN E-COMMERCE PRIVATE LIMITED on July 23, 2021 (Order received on July 26, 2021).

The creditors of SUPERKISAN E-COMMERCE PRIVATE LIMITED, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 6th August, 2021 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of

authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised of the class [Not Applicable] in Form CA. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Apoorv Sarvaria Interim Resolution Professional of Date: 27.07.2021 Superkisan E-Commerce Private Limited Rean No.: IBBI/IPA-002/IP-N01073/2020-2021/13444 Place: New Delhi



to act as authorised representative of creditors

in a class (three names for each class)

14. (a) Relevant forms and

Regd. Office: 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110001

Phones: 011-23357171, 23357172, 23705414, Website: www.pnbhousing.com BRANCH ADDRESS: - C-19/134, M-B, 2nd Floor, Shastri Nagar, Tulsi Complex,

Varanasi - 221010, Uttar Pradesh. Phone No:0542-2224359. Email: varanasi@pnbhousing.com BRANCH ADDRESS: #101, Rohtas Pandit House, First Floor, 9A Shahjanaf Road, Lucknow - 226001, Mobile No:7895649900, Email: lucknow@pnbhousing.com

## NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF CHAPTER III OF SECURITISATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002, READ WITH RULE 3(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 AMENDED AS ON DATE

We, the PNB Housing Finance Ltd. (hereinafter referred to as "PNBHFL") had issued Demand notice U/s 13(2) of Chapter III of the Securitization 8 Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as the "Act") by our Varanasi Branch office situated at C-19/134, M-B, 2nd Floor, Shastri Nagar, Tulsi Complex, Varanasi - 221010. & Also by our Lucknow Branch office situated at #101 Rohtas Pandit House, First Floor, 9A Shahjanaf Road, Lucknow - 226001. The said Demand Notice was issued through our Authorized Officer, to you all below mentioned Borrowers/Co-Borrower/Guarantors since your account has been classified as Non-Performing Assets as per the Reserve Bank of India/National Housing Bank guidelines due to nonpayment of installments/ interest. The contents of the same are the defaults committed by you in the payment of installments of principals, interest, etc. The outstanding amount is mentioned below. Further, with reasons, we believe that you are evading the service of Demand Notice and hence this Publication of Demand Notice which is also required U/s 13(2) of the said Act. You are hereby called upon to pay PNBHFL within a period of 60 Days of the date of publication of this demand notice the aforesaid amount along with up-to-date interest and charges, failing which PNBHFL will take necessary action under all or any of the provisions of Section 13(4) of the said Act, against all or any one or more of the secured assets including taking possession of the secured assets of the borrowers and guarantors.

Your kind attention is invited to provisions of sub-Section (8) of Section 13 of the of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 where under you can tender/pay the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the PNB HFL only till the date of publication of the notice for sale of the secured assets by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Please also note that if the entire amount of outstanding dues together with the costs, charges and expenses incurred by the PNB HFL is not tendered before publication of notice for sale of the secured assets by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty, you may not be entitled to redeem the secured asset(s) thereafter.

Mortgaged

Demand

as on Date of

FURTHER you are prohibited U/s 13(13) of the said Act from transferring either by way of sale, lease or in any other way the aforesaid secured assets. Name/Address of Amount O/s

Address of

	No.	Co-Borrower	Guarantor	100000000000000000000000000000000000000	Notice	Demand Notice
1.	HOU/VAR/ 0719/718188 B.O. Varanasi	Mr. Anii Kumar & Mrs. Shivani Kumar, R/o Arazi No 176, Mauza Chak, Meerapatti, Near Yadav Guest House Allahabad - 211011	N.A.	Arazi No 176, Mauza Chak, Meerapatti, Near Yadav Guest House Allahabad 211011 land Measuring 1004 sq.ft.	17/07/2021	Rs. 19,31,225.16 (Rupees Nineteen Lakh Thirty One Thousand Two Hundred Twenty Five and Paisa Sixteen Only) as on 17/07/2021
2.	0009 6660001813 B.O. Varanasi	Ms. Dhanman Devl, Mr. Sanjay Kumar Gupta & Mr. Suraj Gupta R/o Nai Basti, Shivdaspur, Maduadih, Varanasi	Mr. Vishwanath Malik, R/o D 33/17, Khalishpura Dasahwmedh, Varanasi	Arazi No. 409, Shivdaspur, Manduadih, Varanasi mearsuring 680 Sq. Ft.	17/07/2021	Rs. 6,56,594.36 (Rupees Six Lakh Fifty Six Thousand Five Hundred Ninety Four and Paise Thirty Six only) as on 17/07/2021
3.	0000 96660001890 & HOU/VAR/ 0916/319038 B.O. Varanasi	Mrs. Chandini Khan & Mr Zaheer Khan R/o Flat No MM-22, Block No. A-1, Imlak Colony, Phase 1, S-18/2-A-A-1-22 Nadesar, Varanasi	Mr. Rajdeep Singh R/o C 27/169 Jagatganj, Varanasi in loan account 00096660001890	Flat No. MM-22, Block No. A-1, Imlak Colony, Phase 1, S-18/2-A-A-1-22 Nadesar, Varanasi . Area of the property is 39.87 sq metre	17/07/2021	Rs. 5,76,430.41 (Rupees Five Lakh Seventy Six Thousand Four Hundred Thirty & Fourty One Paise only) as on 17/07/2021
1.	HOU/LUC/ 0419/682363 & NHL/LUC/ 0519/692613 B.O. Lucknow	Mr. Deepak Kumar, Mr. Soni Singh, Mrs. Kusum Verma, All R/o House No. 10C 133, Vrindavan Colony, Utrathiya, Telibagh, Lucknow - 226025	N.A.	Property No -1 All that House No 1, built on Gata No. 38, Situated at Saidpur Jagir, Balaij Vihar Colony, Near Rock Garden, Jankipuram, Distt Lucknow 226021. U.P. Property No. 2, All That House No. 10C, 133, Sec 10, Vrindavan Yojna. Raibarilly Road, Lucknow-226025	22-07-2021	Rs.50,78,327.84 (Rupees Fifty Lakh Seventy Eight Thousand Three Hundred Twenty Seven and Paise Eighty Four Only) as on 22-07-2021
5.	NHL/LUC/ 1019/753515 B.O. Lucknow	Mrs. Radhika Mehrotra (Borrower) To All the legal heirs of late Sri Rakesh Mehrotra R/o 6/380, Vineet Khand 6, Gomti Nagar, Lucknow - 226010	N.A.	All that property bearing Shop No 221, Upper Ground Floor, Deva Place Complex, Viram Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow- 226010. U.P.	21-07-2021	Rs. 26,48,465.79 (Rupees Twenty Six Lakh Forty Eight Thousand Four Hundred Sixty Five and Paise Seventy Nine Only) as on 21-07-2021
	NHL/LUC/ 02220/777685 & NHL/LUC/ 0220/7836878 B.O.: Lucknow	R/o 636/006, Harsh Vihar,	N.A.	House on Plot No 34, Part of Khasra No. 233, Takrohi, Ward Saheed Bhagat Singh, Lucknow - 226016. Uttar Pradesh	14-07-2021	Rs.41,52,922.70 (Rupees Forty One Lakh Fifty Two Thousand Nine Hundred Twenty Seven & Paise Seventy Only) as on 14-07-2021
7.	NHL/LUC/ 0518/534137 & NHL/LUC/ 0619/715995 B.O.: Lucknow	To All the Legal Heir of Late Sri Amit Arya Mr. Ajit Arya, Mr Babu Ram Arya, Mrs. Saraswati Arya R/o E-1416, Rajaji Puram, Avas Vikas Colony, Lucknow - 226017	N.A.	All that House built on Plot No. 1/137, Ratan Khand, Sharda Nagar Yojna, Lucknow-226015	14-07-2021	Rs. 85,71,691.31 (Rupees Eighty Five Lakh Seventy One Thousand Six Hundred Ninety One & Paise Thirty One Only) as on 14-07-2021
0	NHL/LUC/ 0418/516935 & NHL/LUC/ 0519/693512 B.O.: Lucknow	To All the Legal Heirs of Late Sri Rahul Tiwari, Mrs. Kavita Mishra, R/o House No. 33, Sai Vihar Guest House, Havetmau Mavaiya, Rai Bareilly Road, Sector -2, Vrindavan Colony, Lucknow-226014	N.A.	All that Residential Flat No 705, 7th Floor, Paradise Crystel, Sushant Golf City, Rai Bareilly Road, Lucknow-226010, U.P.	14-07-2021	Rs. 24,10,079.32 (Rupees Twenty Four Lakh Ten Thousand Seventy Nine and Paise Thirty Two Only) as on 14-07-2021
9.	NHL/LUC/ 0718/559838 B.O.: Lucknow	To All the Legal Heirs of Late Sri Surendra Kumar, Mr Vijay Kumar Verma, Mr. Vinay Kumar Verma, House no 274, Narayan Puri, Indralok Colony, Manas Nagar So, Lucknow-226023	N.A.	All that Industrial Plot No. F18, Industrial Area, Sarojani Nagar, Lucknow -226008, Uttar Pradesh	14-07-2021	Rs. 92,75,490.72 (Rupees Ninety Two Thousand Seventy Five Thousand Four Hundred Ninety & Paise Seventy Two Only) as on 14-07-2021

Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi the matter of sub-section (4) of Section 13 o Companies Act. 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies

In the matter of **EUROINDIA POWER LIMITED** (CIN: U40105DL1996PLC077633) having its Registered Office at 404, Forth Floor, Roots Tower Plot No. 7, Laxmi Nagar District Centre,

Uttar Pradesh" Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver

on the MCA-21 (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex New Delhi-110003 within fourteen days (14) from the date of publication of this notice with a copy to Mr. Vijay Kumar Sharma, Practicing Company Secretary, VS ASSOCIATES, A-52, Lower Ground Floor, Nirman Vihar, Delhi- 110092 & also to the applicant Company at its Registered Office a the address mentioned below:-404, Forth Floor, Roots Tower Plot No. 7, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092, INDIA

For & on behalf of Applicant EUROINDIA POWER LIMITED

Date: 27.07.2021 Place: Delhi

 $\Lambda$  $\Omega$ UD

PUBLIC NOTICE NTECK AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED

(CIN: U35900HR2011PTC079845) IN THE MATTER OF CHANGE OF NAME & ADDRESS FROM KHM DRIVE SYSTEMS PRIVATE LIMITED

NTECK AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED

It is hereby informed that KHM DRIVE SYSTEMS PRIVATE LIMITED, originally incorporated on 25.03.2011 under the Companies Act, 1956 has changed its name and address to NTECK AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED Plot No.30, Sector-4, IMT Manesar, Gurugram (Haryana) 122052 following the due approval by the Board of Directors, members and central government in terms of Sec. 13 of the Companies Act, 2013 and on receipt of the Certificate of Incorporation pursuant to change of name by the Registrar of Companies dated Sixteenth day of July two thousand twenty -one.

All stakeholders are requested to take note of the above information.

By Order of the Board of Directors



### Notice for extension of Time of e-tender No. 02/Lab/2021-22

Due to some unavoidable circumstances Pre-bid meeting of above e-tender is extended up to 09.08.2021 and last date of submission of on-line bid is extended up to 24.08.2021. Technical bid shall be opened on 25.08.2021. Other terms and conditions of the tender shall remain the same.

**Director** 

## MOREPEN LABORATORIES LIMITED

(CIN: L24231HP1984PLC006028)

Regd. Off.: Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan, H.P. - 173 205

Tel.: +91-1795-266401-03, 23712025, Fax: +91-1795-244591 Website: www.morepen.com, E-mail: investors@morepen.com NOTICE FOR COMPLETION OF PROCESS OF SURRENDER

OF EQUITY SHARES FOR CANCELLATION AND REFUND OF

FIXED DEPOSIT DUES PURSUANT TO ORDER DATED

12.3.2018 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CHANDIGARH We invite attention towards our previous notices dated 13.8.2019 and 27.7.2020 published on 15.8.2019 and 27.7.2020, respectively, in 'Financial Express' and 'Jansatta', wherein the company had informed all the eligible fixed deposit holders to surrender their equity shares for cancellation and receive the refund of their fixed deposit dues along-with interest thereon as per

The company has paid entire fixed deposit dues to all eligible fixed deposit holders who had approached the Company and submitted requisite documents/information up-to 27.7.2021.

Scheme dated 19.8.2003, in accordance with the order passed by

Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh dated

In view of the above and sufficient opportunity given to the eligible FD holders, the Board of Directors of the Company are of the view that the process of surrender of equity shares for cancellation and refund of fixed deposit dues is now complete and the Board informs through this notice to all the concerned persons that the Company has repaid all the eligible FD holders who have submitted their shares for cancellation in compliance with aforesaid order.

In case of any query, please write to us at fixeddeposit@ morepen.com

For Morepen Laboratories Limited

Date: 27/07/2021 Place: New Delhi

Authorized Signatory

[Rs. in Lakhs except per share data]

## THE ANUP ENGINEERING LIMITED

CIN: L29306GJ2017PLC099085

Regd. Office: Behind 66 KV Elec. Sub Station, Odhav Road, Ahmedabad-382415 Website: www.anupengg.com Email: Investorconnect@anupengg.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30<sup>TH</sup> JUNE, 2020

Sr.	Particulars	Quarter Ended on		Year Ended	
No.		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
1 2		Unaudited	Refer note 7	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	5239.24	13392.60	3095.10	28268.39
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	982.58	3324.23	681.11	6146.50
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	982.58	3324.23	681.11	6146.50
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	789.76	2755.30	519.85	5352.32
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other	789.27	2760.65	517.53	5350.34
	Comprehensive Income (after tax)]				
6	Paid up Equity Share Capital	985.12	983.12	1019.95	983.12
7	Reserves as shown in the Audited Balance Sheet	-	-,	-	32731.79
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
	Basic : Rs.	8.03	27.03	5.10	52.51
o y	Diluted: Rs.	7.95	26.82	5.08	52.11
Note	s: (1) The above consolidated financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards	as prescribed und	er section 133	of the Compa	nies Act 2013

read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time. (2) The above financial results which have been subjected to review by

the Auditors of the Company, were reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their meeting held on July 27, 2021 in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The Statutory Auditors have expressed an unqualified audit opinion. (3) The Group's business activity falls within a single operating business segment of engineering products. (4) The Group has considered the possible effects that may result from COVID-19 in preparation of these consolidated financial results including recoverability of its assets comprising Property, Plant and Equipment, Intangible Assets, Trade Receivables, inventory and other assets. In developing the assumptions relating to future uncertainties in the economic conditions due to COVID-19, the Group has considered internal and external information up to the date of approval of these consolidated financial results including economic forecasts and expects that the carrying amount of these assets are recoverable. The impact of the global health pandemic may be different from that estimated as at the date of approval of these consolidated financial results. (5) The Parliament of India has approved the Code on Social Security, 2020 (the Code) which may impact the contributions by the Group towards provident fund, gratuity and ESIC. The Code has been published in the Gazette of India. However, the effective date has not yet been notified. The Group will assess the impact of the Code when it comes into effect and will record related impact, if any, in the period the Code becomes effective. (6) The Company has decided to exercise the option permitted under section 115BAA of the Income-tax Act, 1961 for the year 2019-2020 as introduced by the Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 which was subsequently converted into an Act, at the time of filing return of income during the quarter ended December 31, 2020. Accordingly, the Company has recognised provision for income taxes based on the rate prescribed in the aforesaid section. Further, management reviewed current tax and the components of deferred tax assets/ liabilities leading to a reassessment of its estimates compared to earlier periods. Such re-measurement and change in rate of tax resulted in one time tax credit of Rs. 443.03 Lakh. (7) The figures for the quarter ended March 31, 2021 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and the published unaudited year to date figures up to the third quarter of the respective financial years which were subjected to limited review by the statutory auditors. (8) The Board of Directors, at its meeting held on February 10, 2021, approved Buyback of the Company's fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each from the eligible equity shareholders of the Company other than Promoters, members of Promoter Group and persons in control of the Company, at a price not exceeding Rs. 800/per equity share (Maximum Buyback price), for an aggregate amount not exceeding Rs. 25 Crores (Maximum Buyback size), payable in cash from the open market route through the stock exchange mechanism under the Companies Act, 2013 and SEBI Buyback Regulations. The Buyback commenced on February 24, 2021 and closed on March 15, 2021. Up to March 31, 2021, the Company has bought back 3,87,850 equity shares at an average price of Rs. 642.50 per equity share for an aggregate consideration of Rs. 24.92 Crores excluding Transaction Costs. All the shares bought back have been extinguished as per the records of the depositories. (9) During the quarter, the Company has issued 20,000 equity shares (quarter ended March 31, 2021: Nil; quarter ended June 30, 2020: Nil, Year ended March 31, 2021: 19,482 equity shares) under the Employees Stock Option Scheme. (10) Standalone Information: (Rs. in Lakhs)

	Particulars		Quarter Ended		Year Ended
Sr.		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
No.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
			Refer note 7		
1	Revenue	5256.59	13409.95	3095.10	28285.74
2	Profit before tax	1000.67	3347.94	681.16	6170.61
3	Profit for the period	807.85	2779.01	519.90	5376.43
4	Other Comprehensive Income/(Loss) (net of tax)	(0.49)	5.35	(2.32)	(1.98)
5	Total comprehensive income for the period	807.36	2784.36	517.58	5374.45
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

(11) Previous period figures have been regrouped/re-classified, wherever necessary, to confirm to current period's classification. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website www.anupengg.com. Place: Ahmedabad For The Anup Engineering Limited

Date: 27<sup>th</sup> July 2021

Sanjay S. Lalbhai Chairman



## PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING

Aditya Birla Housing Finance Ltd.

Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat - 362266 Branch Office: D-17 Sec -3 Noida UP

Demand Notice under Section 13(2) of Secur Assets and Enforcement of Security Interest			inancial		July 2	8, 2021
Name and Addresse(s) of Borrower(s) (A)	Description of Property (B)	Loan amount (Rs) (C)	Loan account No. (D)	Outstanding amount (Rs. ) (E)	Date of Notice (F)	NPA Date (G)
<ol> <li>Mr. Vinay Gupta, B-3/18, Sunrise Apartment, Sector-13, Rohini, North West Delhi, Delhi-110085         Also at: Om Mangla Bottle Enterprises, Rep. by its Proprietor Mr. Vinay Gupta, Ground Floor, Plot No. 2393, Block-B, DSIDC, Narela, North West Delhi, Delhi-110040         Also at: Plot No 2, Built up Property bearing No. 2725/203, Village Chowkri Mubarkabad, Delhi State, Delhi, abadi known as Onkar Nagar-A, Tri Nagar, Delhi-110035         2. Ms. Ruchi Gupta, B-3/18, Sunrise Apartment, Sector-13, Rohini, North West Delhi, Delhi-110085         Also at: Plot No 2, Built up Property bearing No. 2725/203, Village Chowkri Mubarkabad, Delhi State, Delhi, abadi known as Onkar Nagar-A, Tri Nagar, Delhi-110035         3. Ms. Sunita Gupta, B-3/18, Sunrise Apartment, Sector-13, Rohini, North West Delhi, Delhi-110085         Also at: Annapurna Polytech Private Limited, Plot No. 4, Pocket-G, Sector-2, DSIDC INDL Complex, Bawana, North Delhi-110039         Also at: Plot No 2, Built up Property bearing No. 2725/203, Village Chowkri Mubarkabad, Delhi State, Delhi, abadi known as Onkar Nagar-A, Tri Nagar, Delhi-110035         4. Om Mangla Bottle Enterprises, Rep. by its Proprietor Mr. Vinay Gupta, Ground Floor, Plot No. 2393, Block-B, DSIDC, Narela, North West Delhi, Delhi-110040         Also at: Plot No 2, Built up Property bearing No. 2725/203, Village Chowkri Mubarkabad, Delhi State, Delhi, abadi known as Onkar Nagar-A, Tri Nagar, Delhi-110035         Also at: B-3/18, Sunrise Apartment, Sector-13, Rohini, North West Delhi, Delhi-110085         5. Annapurna Polytech Private Limited, Rep. by its Director Mrs. Sunita Gupta, Plot No. 4, Pocket-G, Sector-2, DSIDC INDL Complex, Bawana, North Delhi - 110039         Also at: Plot No 2, Built up Property bearing No. 2725/203, Village Chowkri Mubarkabad, Delhi State, Delhi, abadi known as Onkar Nagar-A, Tri Nagar, Delhi-110035         Also at: B-3/18, Sunrise Apartment, Sector-13, Rohini, North West Delhi, Delhi-110085</li> </ol>	Flat No. B-3/018, Ground Floor, plinght area measuring area 91.3 sq. mtrs. shown in the layout plan of Samant Bhandra Co-op Group Housing Society Limited popularly known as Sunrise Apartments, built on society Plot No. 37, Sector-13, Rohini, North West Delhi, Delhi-110085  Property No. 2 for Loan Account No. LNDELPNO-02200066784  Property bearing Plot No. 2, now known as Freehold Built up Property bearing No. 2725/203, land area measuring 100 sq.yds. (i.e. 15'X60'), bottom to top with	Rs. 1,31,30,000/-	LNDELPNO- 02200066166 & LNDELPNO- 02200066784	Rs. 1,57,60,187.42/- (Rupees One Crore Fifty Seven Lakh Sixty Thousand One Hundred Eighty Seven and Paisa Forty Two Only) by way of outstanding principal, arrears (including accrued late charges) and interest till 10-June-21.	30-06-2021	31-03-21

Whereas Aditya Birla Housing Finance Limited, having its above mentioned branch office (hereinafter referred as "ABHFL") had extended to the above named borrower(s) written in column A separate credit facilities written in Column C vide Loan account no mentioned in Column D against the name of each set of borrowers.

The said credit facilities are secured inter alia by way of mortgage over the immovable property as described in column "B" (hereafter referred to as the "Secured Asset"). That the above named borrower(s) have failed to maintain financial discipline in the loan account and as per the books of accounts maintained in the ordinary course of business by ABHFL there exists an

outstanding amount indicated in column E as indicated against the name of each of the borrower(s) Due to persistent default in repayment of the loan amount on the part of the above named borrower(s) the loan account of the above named borrower(s) have been classified by ABHFL as non performing asset/s on

indicated in the column G respectively within the norms stipulated by the Reserve Bank of India/ National Housing Board. Consequently, notices under Sec 13(2) of the Sarfaesi Act, 2002 were also issued to each of the borrower(s) notice dated mentioned in column F, which have Undelivered / Delivered. In view of the above default ABHFL hereby calls upon the above named borrower(s) to discharge in full their liabilities towards ABHFL by making payment of the entire outstanding dues indicated in Column E as

indicated above including up to date interest, costs, and charges within 60 days from the date of publication of this notice, failing which, ABHFL shall be entitled to take possession of the Secured Asset and shall also take other actions as is available to ABHFL in law. That please be informed that you, the above named borrower(s) are hereby restrained from alienating (including by way of transfer, sale, lease or otherwise) or creating third party interest or dealing with the

That please note that this is a final notice under Section 13(2) of The Securitization And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest. Act, 2002. Needless to say, that ABHFL shall be within its right to exercise any or all of the rights referred to above against you the Addressee entirely at your risk, responsibility and costs.

secured Asset in any manner except with specific prior written permission from ABHFL. Be informed that any contravention thereof shall be punishable with imprisonment up to a period of one year or with fine or

financialexp.epapr.in

DATE :- 27.07.2021

HOU/KNP/ Mr. Vinod Kumar Kashyap,

B.O.: Kanpur No. 44, Old Line, 37, PAC Vahini,

Shyam Nagar, Kanpur, U.P.

0918/581031 Mrs Urmila Urmila,

PLACE :- VARANASI, LUCKNOW, KANPUR,

Rs.14,62,218.93

(Rupees Fourteen Lakh Sixty Two Thousand Two Hundred

Eighteen and Paise Ninety

Three Only) as on 17-07-2021

PNB HOUSING FINANCE LTD.

AUTHORIZED OFFICER,

Place: Delhi

Date: 28/07/2021

Form No. INC-26 {Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014} (Incorporation) Rules, 2014 AND

Delhi-110092, INDIA ..Applicant Company / Petitione NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 26th July, 2021 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of

DINESH CHAND DIN: 02291656

New Delhi

Signed by Authorized Officer, Aditya Birla Housing Finance Limited

All That property bearing 17-07-2021

Arazi No. 166, Plot No. 48

and 47, Daheli Sujanpur,

Kanpur Nagar, Kanpur,

Uttar Pradesh

प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली. 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनांस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनयम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सुचना जारी कर ऋणधारकों को उन्हें जारी की गई संबंधित मांग सुचना(ओं) में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया। उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतदृद्वारा ऋणधारकों को निर्देश दिया जाता है कि मांग सूचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ यहां नीचे दर्शाई गई राशि का इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भगतान करें। ऋणधारकों, मांग सचना की तिथि को बकाया राशि तथा ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिये प्रस्तावित प्रतिभूति का विवरण इस प्रकार है:

		~ .
ऋणधारकों/गारन्टरों का नाम	भाग सूचना की तिथि एवं गारित	प्रतिकृति चीतास्त्रीत (२०वल तस्त्रीत) का विकास
श्री प्रदीप कुमार चायला, श्रीमती सुनीता चायला (प्रस्पियट नं. 723385)	23-बुनाई-2021 रु. 2473495.00 (रु. चौकीस लाख क्रिडनर हजार चार सी पंचारको स्थल)	सम्पति का सभी तथा क्रिस्तः अपार्टकेन्ट नं, 0503, टावर नं, टी-2, लेकसाइड डाइट्स, लेक डोय, कुण्डली, लोनीयत, डरियाण, भारत
श्री वर्णेश हलदर, श्री दिनेश हलदर, श्रीमती सीमा हलदर (प्रॉस्मेक्ट नं. 873431 एवं 919936)	23-वृताई-2021, प्रस्तिकः र. 873431 १. 15,30,1737- (१. पन्द्रहः ताख वीयः हतार एक यी तिहत्तरः मात्र) प्रस्तिकः वं, 919936 र. 1,94,164 (१. एक लाख चीहानवे हतार एक यी छत्तीस मात्र)	सम्मवि का सभी तथा हिस्साः विभिन्न क्रयते तल, वन के अधिकार के साथ, सम्मवि सं. जे एवं के-120-वी, माप 60 वर्ग पाईस अर्थात् 540 वर्ग पीट, क्रवर्ड, वृदिया 50.16 वर्ग भी., खतात नं. 63/3 में, जे एवं के ब्लॉक, लक्ष्मी नगर, ग्राम खुरेजी खास, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110092, भारत
श्रीमती रागिनी हा, ओम प्रकाश सर्विसेस श्री रेजन कुमार झा (प्रॉप्सेक्ट नं. IL10033027 एवं 944065)	23- बुलाई-2021 प्रॉस्मेक्ट नं. IL10033027 क. 1191615/- (क. ग्याव्ह लख्य इक्यानचे हजार छ: सी पन्द्रह मात्र) एवं प्रॉस्पेक्ट नं. 944065, क. 74865/- (क. चीहनर हजार आद सी पैसठ मात्र)	सम्मति का सभी तथा डिस्साः फ्लैंट मं. एस.एक7, एलआइंजो, दूसरा तल, इत के अधिकार के साथ, लैंग्स्ट हैंड सहड, प्लीट मं. डी-8/20, कुल कवर्ड एरिया नाप 350 वर्ष फोट अर्थात् 32.51 वर्ष मीटर, डीएलएक अंकुर विद्यार लोगी, जो ग्राम हदयस्त लोगी, गाजियाबाद, उ.प्र201102, भारत में रिश्वत है।

तथा जानु होने वाले निवासे के अंगलेर प्रकार प्रतिभूत परिलम्पियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। अधिक विवासी के लिये कृपना शास्त्र कार्यालः ३८/३८ई, क्यरे भू तल, मैन शिवासी मार्ग, नजपगढ़ रोड हाल... प्राधिकृत अधिकारी आईआईएकएल डोम फाइनांग लि. के लिले

#### Golkonda Aluminium Extrusions Limited (Formerly known as Alumeco India Extrusion Limited) CIN: L74999DL1988PLC330668 Regd. Office: A-2/78-B, Keshav Puram, New Delhi - 110 035, India

Tel: +91 011 4011 0240, +91 99851 21834, E-mail: cs@gael.co.in, Website: www.gael.co.in **Extract of Statement of Unaudited Standalone Financial Results** for the Quarter ended 30.06.2021

(Amount in Millions)

Sr.	Particulars	Quarter ended	Year ended	Quarter ended	
No.	9	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	
1	Total income from operations (Net)	4.28	4.74	0.00	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3.26	16.89	4.17	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.26	16.89	4.17	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.26	16.89	4.17	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	1167	*		
6	Paid-up Equity share capital (Face value Rs. 10/- each)	37.20	37.20	37.20	
7	Other Equity [Reserves (excluding Revaluation Reserves)				
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)  a) Basic b) Diluted	0.46 0.32	4.13 1.65	1.00 0.41	

The above is an extract of the detailed format of quarter ended results filed with the stock exchange under Regulation 33of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly & year to date financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the company's website The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 27.07.2021.

For and on behalf of Golkonda Aluminium Extrusions Limited

> Anand Bharti Whole Time Director

एतदद्वारा, अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी, **पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

(सरफेसी) में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए व प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियम 2002 के साथ पठित धारा 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निम्न वर्णित

ऋणी / यों / बंधककर्ता / ओं को मांग सूचना पत्र निम्नवर्णित तिथियों को भेजे गए कि वे उक्त नोटिस / सों की प्राप्ति / नोटिस जारी करने की तिथि के 60 दिनों के

भीतर सम्बन्धित मांग सूचना पत्र में दी गयी राशि का भूगतान कर दें। ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं द्वारा ऋण राशि का भूगतान न कर पाने के कारण सभी

ऋणी / यों / बंधककर्ता / ओं और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सपिठत

नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित सम्पत्तियों का सांकेतिक/भौतिक कब्जा निम्नवर्णित तिथियों को ले लिया है।

ऋणी / यों / बंधककर्ता / ओं को विशिष्टितः और सर्वसाधारण को सामान्यतः सर्तक (सावधान) किया जाता है कि वह निम्नलिखित सम्पत्तियों के साथ कोई लेन-देन न

करें। जमान्ती आस्ति को Redeem कराने हेत् उपलब्ध समय सीमा के सम्बन्ध में ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं /गारन्टीकर्ता/ओं का ध्यान सरफेसी अधिनियम की

धारा 13(8) के प्रावधान की आकर्षित किया जाता है। सम्पत्तियों से किया गया किसी भी प्रकार का लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक के ऋण भार के निम्नलिखित वर्णित

मैसर्स मनसा पैकेजिंग, निवासी: प्लॉट नं0 68, शक्ति विडार, फेस-2, हरिद्वार (नगर निगम मंगलोर की सीमा में), सीमाएँ:- पूर्वः 16 फीट चौडा रास्ता

क्षेत्र, हरिद्वार- 249402, उल्तराखण्ड। 5. श्री मोनिष एत्र श्री युसुफ, निवासीः मंगलोर, रूडकी- 247656, हरिद्वार, उत्तराखण्ड। 6. श्री मीहम्मद असलम.

**ऋणी**: एम0जी0 पश्चिक स्कूल शिक्षा समिति, थैयरमेन, डा0 राजेन्द्र | नई आबादी, कस्बा- बुढ़ाना, मडबाड़ा रोड से उत्तर में 150 मीटर से अधिक की

ऑफिस, बुढ़ाना, निष्पादित श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बल्ला सिंह, श्री बाबू राम पुत्र श्री अत्तर सिंह के नाम पर पंजीकृत है।**, सीमाएँ:**– पूर्वः

बंधक सम्पत्ति का विवरण

25 फीट 10 इंच, पश्चिम- 25 फीट 10 इंच, उत्तर: 34 फीट 7 इंच एवं दक्षिण-

34 फीट 7 इंच, कुल क्षेत्रफल 893.332 वर्ग फीट अर्थातु 83.028 (वर्ग मीटर)

खसरा नं0 468 मि, स्थित मंगलीर परगना मंगलीर, तहसील- सड़की एवं जिला-

पश्चिमः अब्दुल राशिद का मकान, उत्तरः शाजाद बगैरा का मकान एवं दक्षिणः

जाहिद की भूमि, बही नं0 1, जिल्द नं0 1685, पेज नं0 1-14, क्र0सं0 11283

दिनांक 28.12.2012, पर पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामी श्री मोनिय पुत्र श्री यूसुफ।

एक प्लॉट माप क्षेत्रफल 215 वर्ग गज अर्थातु 180 वर्ग मीटर एवं निर्मित, स्थित

दूरी पर, परगना एवं तहसील- बुढ़ाना, जिला- मुजफ्फरनगर, बही नं0 1, जिल्द

नं0 1621, पेज नं0 20/21, क्र0सं0 4093, दिनांक 23.09.1990, सब-रजिस्ट्रार

बंधक खाली प्लॉट एवं निर्मित प्लॉट के सभा भाग व भूखंड, भूमि माप क्षेत्रफल पूर्व- 17.12.2019 22.07.2021

Place: New Delhi Date: 27.07.2021 DIN: 02469989

पंजाब गैश्गमल बैंक e punjab national bank

रिकवरी ढिपार्टमेंट-सर्किल ऑफिस, सेक्टर IV, भेल, हरिद्वार

राशि एवं उस पर ब्याज व अन्य खर्चे के अधीन होगा।

शाखाः कनखल, हरिद्वार

शाखाः गुरुकुल कांगडी, हरिद्वार

विनांक: 27.07.2021

www.readwhere.com

शाखा / ऋणी

के नाम

ऋणीः 1. मैसर्स मनसा पैकेजिंग पार्टनरः श्री रवि चन्द्र मिश्रा, श्री

मौहम्मद सिकन्दर, श्री मोनिष, पताः ई-57, बहादराबाद, औद्योगिक

सलेमपुर महदुद, हरिद्वार- 249407, उत्तराखण्ड। 3. श्री मीहम्मद

सिकन्दर, पार्टनरः मैसर्स मनसा पैकेजिंग, निवासीः मकान नं0 666,

मीहल्ला सेटी, रूडकी- 247667, उत्तराखण्ड । 4. श्री मोनिष पार्टनर

सैनी, ग्राम- अहमदपुर ग्रांट, पोस्ट बहादराबाद- 249402, जिला-

निवसीः मकान नं0 158, मंगलोर, पोस्ट- मंगलोर, तहसील- रूड़की, हरिद्वार- 247656, उत्तराखण्ड।

रास्ता, पश्चिमः श्री ग्यासुद्दीन का प्लॉट, उत्लरः श्री महक सिंह का प्लॉट एवं दक्षिणः विक्रेता का प्लॉट।

मैसर्स मनसा पैकेजिंग, निवासी: ई-57, बहादराबाद, औद्योगिक

क्षेत्र, हरिद्वार- 249402, उत्तराखण्ड। 2. श्री रवि चन्द्र मिश्रा पार्टनर

#### इण्डियन ओवरसीज़ बैंक केन्द्रीय कार्यालय ७६३, अण्णा सालै - चेन्नै - ६०० ००२

सूचना 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के अ-लेखा परीक्षित (समीक्षित) वित्तीय परिणामों पर विचार करने एवं उनको अनुमोदित करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार ,दिनांक 03 अगस्त 2021 को चेन्नै में

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता स्थान : चेनी दिनांक : 27.07.2021 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यधालक अधिकारी

आयोजित होने की एतद्दवारा सूचना दी जाती है।

#### सार्वजनिक सूचना एनटेक ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U35900HR2011PTC079845) केएचएम डाइव सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

एनटेक ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड

में नाम और पते में परिवर्तन के मामलें में

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि केएचएम ब्राइव सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे मूल रूप से कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 25.03.2011 को निगमित किया गया था, ने अपना नाम और पता बदलकर एनटेक ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नं0. 30, सेक्टर-4, ऑएमटी मानेसर, गुरूग्राम (हरियाणा) 122052 कर लिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अनुसार निदेशक मंडल, सदस्यों और केंद्र सरकार द्वारा उचित अनुमोदन के बाद और दिनांक सोलहवें दिन जुलाई दो हजार इक्कींस को कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा नाम बदलने के लिए निगमन प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर।

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी पर घ्यान दें। निदेशक मंबल के आदेश से

#### एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड CIN: L51909DL1983PLC015585 पंजी. कार्यालयः 10/60, इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर.

नई दिल्ली-110015 Phone: 011-41426055, Website: www.abmintl.in E-mail: vkgandhi@abmintl.in बोर्ड की बैठक की सुचना

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि सेबी (सुचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा विनियमन, 2015 के विनियमन 29 एवं 47 के अनुपालन में अन्य बातों के अलावे 30 जुन, 2021 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामो पर विचार तथा अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 6 अगस्त, 2021 को 10/60, इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 में आयोजित की जायेगी।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट http://www.abmintl.in तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट http://www.nseindia.com पर भी देखी जा सकती है। पुनः कम्पनी के विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिये आचार संहिता के साथ पठित सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुपालन में कम्पनी का ट्रेडिंग विण्डो कम्पनी की इक्विटी शेयरों मे ट्रेडिंग के लिये 1 जुलाई, 2021 से बंद है तथा कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की सार्वजनिक घोषणा के बाद 48 घंटे तक बंद रहेगा।

एबीएम इंटरनेशनल लिमिटेड के लिये हस्ता./- (विरेन्दर कुमार गांधी स्थानः नर्ड दिल्ली तिथि: 27.7.2021 प्रबंध निदेशक DIN: 00244762

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति हेत्)

मांग नोटिस

की तिथि

चिपकाये गये मांग नोटिस के

अनुसार बकाया

रकम

36,61,927.96

19.12.2019

व्याज एवं अन्य

खर्चे

48,12,472/-

दिनांक

31.03.2021

खर्चे

28 जुलाई, 2021

ब्याज एवं अन्य

दिनांक

कब्जा नोटिस

की तिथि

कब्जा

सांकेतिक

कब्जा

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

02.05.2018 22.07.2021

पठित एनसीएलटी नियमावली, 2016 के नियम 38 के अंतर्गत स्थानापन्न सेवा द्वारा सुचना

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, कोट II में मै. जैक्सन लिमिटेड बनाम मै. थ्री सी युनिवर्सल डेवलपर्स प्रा.लि. आई.ए. नं. 2021 के 2388, सीपी.(आईबी)-2582/एनडी/2019 में

सेवा में.

2. राजेन्द्र कमार (प्रतिवादी सं. 2)

मकान सं. 286, गली नं. 8/ए, ब्लॉक-जी, रितया मार्ग, संगम विहार, टिगरी, नई दिल्ली-

आईबीसी, 2016 की धारा 66 के अंतर्गत आई.ए. नं. 2388/2021 दाखिल किया है। जैसा कि माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली, कोर्ट II ने 7.7.2021 को प्रतिवादी सं. 1 तथा 2 को सचना जारी किया कि आदेश तिथि 7.7.2021 के माध्यम से माननीय एनसीएलटी ने अधोहस्ताक्षरी को स्थानापन्न सेवा के माध्यम से आप एड्रेसी को सर्व करने की अनुमित दी है।

ध्यान रहे कि अब ऊपर शीर्षांकित मामले माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली कोर्ट II के समक्ष 11.8.2021 को सूचीबद्ध की जाएगी। आप व्यक्तिगत अथवा अपने अधिकत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।

ध्यान रहे कि उक्त तिथि को उपस्थित नहीं होने पर आवेदन की सनवाई तथा निर्णय आपकी अनपस्थिति में की जायेगी।

## आस्तियों की बिक्री हेतु सूचना

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत स्टलिंग ह्वीकल्स एण्ड जनरल सेल्स प्राइवेट लिमिटेड

( परिसमापनाधीन )

पंजीकृत कार्यालय : 6-ए, टाटा अपार्टमेंट, 23, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110001 परिसमापक का पता : एलजीएफ, जे-12, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014

ई-	मेल : liquidator.sterlingvehicles@gmail.com   म	विवाइल नं. : 9	810970099
सं.	बिक्री हेतु आस्तियों का संक्षिप्त विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	ईएमडी ( रु. लाख में )
	नोएडा (उ.प्र.) में ऑटोमोबाइल वर्कशाप (ऑडी) में पाइप, फिटिंग एवं विशेष औजारों सहित संयन्त्र तथा मशीनरी।	₹. 16.00	₹. 3.50
	नोएडा (उ.प्र.) में फर्नीचर (एसी आदि सहित)	रु. 6.70	रु. 02.00
3.	नोएडा (उ.प्र.) में ऑटोमोबाइल (ऑडी) के स्पेयर पार्ट्स एवं एसेसरीज	₹. 35.00	रु. 6.00
-			

निरीक्षण की तिथि तथा समय : 28 जुलाई, 2021 से 4 अगस्त, 2021 (12.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. तक) परिसमापक को पूर्व में सूचित करके। ईओआई जमा करने की अन्तिम तिथि : 5 अगस्त, 2021 को 6 बजे अप. तक

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 6 अगस्त, 2021 (3.30 बजे अप. से 5.30 बजे अप.) निरीक्षण हेतु सम्पर्क व्यक्ति : श्री मुस्ताक खान, मोबाइल नं. : 9582321503 बिक्री के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं: 1. ई-नीलामी अनुमोदित बिना किसी वारंटी तथा इंडेम्निटी होने के कारण ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही

है'', ''जो कछ भी है वही है आधार'' तथा ''उपचार रहित आधार'' पर संचालित की जायेगी। 2. संविदाएँ निर्धारित प्रारूप में परिसमापक के पास (ऑनलाइन या हार्ड कॉपी) जमा की जायेंगी। सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत नियम एवं शर्तों सिंहत संविदा प्रपत्र वेबसाइट https://eauction.org डाउनलोड किये जा सकते हैं अथवा ई-मेल liquidator.sterlingvehicles@gmail.com से प्राप्त इच्छुक संविदाकार संविदा जमा करने के क्रम में इन्वेंट्री लिस्ट तथा अन्य विवरण हेतु परिसमापक से सम्पर्क

कर सकते हैं।

तिथि : 27.07.2021 स्थान : नई दिल्ली

सुनील प्रकाश शर्मा, परिसमापव पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00551/2017-18/11726

#### हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल लि. CIN: L27106WB1987PLC042756

पंजी. कार्या.: 23ए, नेताजी सुभाष रोड, 8वीं मंजिल, कोलकाता- 700 001 कार्पोरेट कार्यालय: 8, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, द्वितीय तल, कोलकाता- 700 001 फोन: 91-033-22309953/22304363; फैक्स: 033-22309051, वेबसाइटः www.himadri.com

सूचना

विषय: निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि को इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 201 के नियम 6(3)(ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार एतदृद्वार

नोटिस दिया जाता है कि जिन इक्विटी शेयरों का लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का दावा न किया गया हो या भगतान न किया गया हो उसके संबंध में कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि ( आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। हम आगे सूचित करते हैं कि 24 सितंबर 2014 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में घोषित 31 माच

2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश, सात साल की अवधि समाप्त होने के बाद 30 अक्टूबर 2021 को आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाना है। 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष और उसके बाद के अदत्त लाभांश की राशि संबंधित वर्षों के लिए अलग-अलग बैंकिंग खातों में पड़ी है। यह भी सुचित किया जाता है कि जिन शेयरधारकों ने 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष और उसके बाद लाभांश का दावा नहीं किया है, यदि कोई हो, उन्हें एक रद्द चेक/बैंक विवरण के साथ अपने हस्ताक्षर के तहत 29 अक्टूबर 2021 को या उससे पहले कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, **मेसर्स** एसके इंफोसोल्युशन्स प्रा. लिमिटेड, डी/42, काटजू नगर कॉलोनी, धरातल, साउथ सिटी मॉल के पास, पीओ और पीएस- जादवपुर, कोलकाता- 700 032 को एक पत्र भेजकर ऐसे लाभांश का दावा करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। उन शेयरधारकों का विवरण जिन्होंने लगातार सात वर्षों या उससे अधिक की अवधि के लिए लाभांश का दावा नहीं किया है और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों का संबंधित विवरण कंपनी की वेबसाइट www.himadri.com पर निवेशक अनुभाग के तहत उपलब्ध है।

यदि यहां दी गई अवधि के भीतर संबंधित शेयरधारकों से वैध दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी उन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी। 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए घोषित लाभांश भी यहां निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाएगा।

शेयरधारक ध्यान दें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने के बाद दावा न किए गए लाभांश और दावा न किए गए शेयरों दोनों को आईईपीएफ प्राधिकरण से वेब फॉर्म आईईपीएफ-5 दाखिल कर-के और उसके तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किया जा सकता है। दावा न किए गए/अदत्त लाभांश के संबंध में और शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के बाद कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

जिन शेयरधारकों के पास उपरोक्त के संबंध में कंपनी को संप्रेषित करने के लिए कोई प्रश्न या कछ है. वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स एसके इंफोसोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड, (संपर्कः श्री दिलीप भट्टाचार्य) डी/42, काटजू नगर कॉलोनी, धरातल, साउथ सिटी मॉल के पास, पीओ और पीएस- जादवपुर, कोलकाता- 700 032 (दूरभाषः 033-24120027/033-24120029, ई-मेल आईडीः skcdilip@gmail.com को लिख सकते हैं।

कृते हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल लि.

एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

अंचल कार्यालय उत्तर, प्लॉट नं. 132-134, सेक्टर-44,

GSTIN: 06AAACT6167G1ZB

आरक्षित मूल्य

रु. 24.40 करोड़

(रुपये चौबीस

करोड चालीस

लाख मात्र)

ईएमडी

रु. 2.44 करोड

(रुपये दो करोड़

चौवालीस लाख

मात्र)

(श्री राजीव कुमार डीगरा)

अधिकृत प्राधिकारी, द जेएण्डके बैंक लिमिटेड

मोनिका सारस्वत कंपनी सचिव, स्थानः कोलकाता दिनांकः 28 जुलाई, 2021 एसीएस: 29322

रे.: + 91 (0) 0124-4715800; + 91 (0) 0124-4715800, ई-मेल : iapmd.del@jkbmail.com, वेब : www.jkbank.net

र्ड-नीलामी बिक्री

(सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत अचल बंधक सम्पत्ति/यों की बिक्री हेतु)

[नियम 8(6) का प्रावधान देखें]

एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदारों तथा जमानतियों को सूचना दी जाती है कि जम्मू एण्ड

कश्मीर बैंक लिमिटेड, व्यापारिक इकाई लाजपत नगर, दिल्ली के पास मैसर्स ट्रांस एशियन इंडस्ट्रीज

एक्सपोजीशन प्रा.लि. के पक्ष में विस्तारित प्रतिभत ऋण सविधा/ओं की प्रतिभति के रूप में बंधक नीचे वर्णित

अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत बैंक के अधिकृत

प्राधिकारी द्वारा किया गया है, सम्बद्ध फर्म के निम्नलिखित कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) एवं जमानती(यों)

की ओर बकाया 31.05.2017 तक रु. 28,88,52,922.54 (रुपये अट्टाईस करोड़ अट्टासी लाख बावन

हजार नौ सौ बाईस एवं चौवन पैसे मात्र) तथा भावी ब्याज, लागत एवं प्रभारों आदि की वसूली के लिए

''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी वहीं है'' आधार पर ई-नीलामी द्वारा 03.09.2021

मैसर्स ट्रांस एशियन इंडस्ट्रीज एक्सपोजीशन प्रा.लि., मुख्य कार्यालय : निशात, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर-

मोहम्मद यासीन मीर (निदेशक/जमानती) पुत्र स्व. श्री अब्दुल कथूम मीर निवासी ईशबर, गुप्ता गंगा, निशात,

श्री मोहम्मद हनीफ नीर, (निदेशक/जमानती) पुत्र स्व. श्री अब्दुल कयूम मीर निवासी ईशबर, गुप्ता गंगा,

श्री इमरान मलिक पुत्र रियाज मलिक निवासी वानाबल श्रीनगर/साथ ही ईशबर, गुप्ता गंगा, निशात, श्रीनगर,

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के पूर्ण विवरण एवं समस्त नियम तथा शर्तों सहित संविदा दस्तावेज/प्रारूप वेबसाइट

"http://sarfaesi.auctiontiger.net" से प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं (सम्पर्क व्यक्ति श्री चिन्तन भट,

: श्री राजीव कुमार डीगरा (अधिकृत प्राधिकारी) मोबाइल : 9419296770 शाखा प्रमुख लाजपत नगर, श्री नरेश

यह प्रकाशन नीलामी की तिथि से पूर्व ब्याज तथा व्ययों सहित कुल बकाया राशि अदा करने के लिए उपर्युक्त कथित

ऋण खातों के कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के

सन्दर्भ में 30 दिवसीय सूचना भी है, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और ब्याज तथा

कुमार, मोबाइल : 9419199749 तथा श्री मोहम्मद अशरफ महाजन (आईएआरबी) मोबाइल नं. 8851478284.

(मो.) 9978591888, 9265562821 तथा जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक की वेबसाइट www.jkbank.com.

190001, साथ ही : एम-1, हौज खास मेन मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 (कर्जदार)

बंधक सम्पत्ति का विवरण

विला नं. ८, ब्लॉक-डी, अंसल विला, ग्राम सतबाड़ी,

तहसील मेहरौली. नई दिल्ली. साथ ही उसके तहत

भूमि एवं एपर्टीनेंट, खसरा नं. 812 मिन (4-3) तथा

खसरा नं. 813 मिन (3-10) माप ७ बीघा एवं 13

बिस्वा (1.607 एकड़), मैसर्स ट्रांस एशियन इंडस्ट्रीज

एक्सपोजीशन प्रा.लि. के नाम पर।

व्ययों सहित शेष, यदि कोई हो, उनसे वसूल किया जायेगा।

तिथि : 27-07-2021, स्थान : गुरुग्राम हरियाणा

**J&K** Bank

को बिक्री की जायेगी

क्र.

श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर-190001

निशात, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर-190001

जम्मू एवं कश्मीर-190001 (जमानती)

Serving To Empower

# PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात-362266 शाखा कार्यालय : डी-17, सेक्टर-3, नोएडा

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,

कर्जदार(रों) के नाम तथा पता	सम्पत्ति का विवरण	ऋण राशि	ऋण खाता सं.	बकाया राशि (रु.)	सूचना की	एनपीए तिथि
( <b>क</b> )	(평)	( रु. )	(ঘ)	(ভ)	तिथि	( ভ )
		(刊)			(च)	
1. श्री विनय गुप्ता, बी-3/18, सनराइज अपार्टमेंट, सेक्टर-13, रोहिणी, उत्तर-पश्चिम			LNDELPHL-	₹. 86,12,170.33/-	30.06.2021	31.03.202
दिल्ली, दिल्ली-110085	अप सम्पत्ति सं. 2725/203, भूमि क्षेत्रफल		07190053807	(रुपये छियासी लाख		
साथ ही : ओम मंगला बॉटल एन्टरप्राइजेज, इसके प्रोपराइटर श्री विनय गुप्ता द्वारा	माप 100 वर्ग गज (अर्थात 15'60'),		& LNDELPHL-	बारह हजार एक सौ		
प्रतिनिधानित, भूतल, प्लॉट नं. 2393, ब्लॉक-बी, डीएसआईडीसी, नरेला, उत्तर-पश्चिम			07190053808	सत्तर एवं तैंतीस पैसे		
दिल्ली, दिल्ली–110040	से ऊपर तक, ग्राम चौकड़ी मुबारकबाद,			मात्र) 10 जून, 2021		
साथ ही : प्लॉट नं. 2. बिल्ट अप सम्पत्ति सं. 2725/203, ग्राम चौकड़ी मुबारकबाद, दिल्ली				तक बकाया मूलधन,		
राज्य, दिल्ली, आबादी ओंकार नगर–ए, त्रिनगर, दिल्ली–110035.	ए, त्रिनगर, दिल्ली-110035 में स्थित तथा			एरिया (विलम्ब प्रभार		
2. श्रीमती रुचि गुप्ता, बी-3/18, सनराइज अपार्टमेंट, सेक्टर-13, रोहिणी, उत्तर-पश्चिम	निम्नलिखित का फ्रीहोल्ड अधिकार, सीमाएँ			सहित) तथा ब्याज के		
दिल्ली, दिल्ली-110085	ः उत्तरःगली/रास्ता ८ फीट, दक्षिणः सड़क,			माध्यम से		
साथ ही : प्लॉट नं. 2. बिल्ट अप सम्पत्ति सं. 2725/203, ग्राम चौकड़ी मुबारकबाद, दिल्ली	पश्चिम : बिल्ट अप प्लॉट नं. 3, पूर्व : अन्य					
राज्य, दिल्ली, आबादी ओंकार नगर-ए, त्रिनगर, दिल्ली-110035.	सम्पत्ति।					
3. ओम मंगला बॉटल एन्टरप्राइजेज, इसके प्रोपराइटर श्री विनय गुप्ता द्वारा प्रतिनिधानित,						
भूतल, प्लॉट नं. 2393, ब्लॉक-बी, डीएसआईडीसी, नरेला, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-						
110040						
साथ ही : प्लॉट नं. 2. बिल्ट अप सम्पत्ति सं. 2725/203, ग्राम चौकड़ी मुबारकबाद, दिल्ली						
राज्य, दिल्ली, आबादी ओंकार नगर-ए, त्रिनगर, दिल्ली-110035.						

जैसा कि आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड जिसका ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय है (यहाँ के बाद 'एबीएचएफएल' वर्णित) ने उक्त प्रत्येक ऋणधारकों के नाम के समक्ष कालम घ में वर्णित ऋण खाता सं. के माध्यम से कॉलम ग में लिखित पृथक साख सुविधा कॉलम क में वर्णित उक्त नामित ऋणधारकों को प्रदान किया था।

उक्त साख सुविधाएं अन्य बातों के अलावे प्रत्येक ऋणधारक के नाम के समक्ष लिखित अचल सम्पत्ति पर गिरवी द्वारा प्रतिभूत है (यहाँ के बाद ''प्रतिभूत परिसम्पत्ति'' वर्णित)। कि, ऊपर नामित ऋणधारक ऋण खाता के वित्तीय अनुशासन को कायम रखने में विफल रहे तथा एबीएचएफएल द्वारा व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया में प्रबंधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रत्येक ऋणधारक के नाम के

समक्ष कॉलम 'च' में दर्शाई गई तिथि तक कॉलम 'ङ' में वर्णित राशि बकाया है। उक्त ऋणधारकों की ओर से ऋण राशि के पुनर्भुगतान में लगातार चूक के कारण उक्त ऋणधारकों की ऋण खाता को भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अंतर्गत क्रमशः कॉलम 'छ' में दर्शाई गई तिथि को एबीएचएफएल द्वारा गैर प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। तदुपरांत, प्रत्येक ऋणधारक को सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत कॉलम 'च' में उल्लिखित सुचन

उपरोक्त चुक को देखते हुए एबीएचएफएल एतदुद्वारा ऊपर नामित ऋणधारकों को निर्देश देता है कि इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज, लागत एवं चार्जेज सहित ऊपर कॉलम 'च' गं

दर्शाई गई तिथि तक कॉलम 'ङ' में दर्शाई गई सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान करें, अन्यथा एबीएचएफएल प्रतिभूत परिसम्पित्त का कब्जा कर लेगा तथा कानून में एबीएचएफएल को उपलब्ध अन्य कार्रवाई भी करेगा। कि, कृपया यह जान लें कि आप, ऊपर नामित ऋणधारक को एबीएचएफएल की विशिष्ट लिखित पूर्व अनुमति को छोड़कर किसी भी तरीके से प्रतिभूत परिसम्पत्ति का (अन्तरण, बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप में) स्वत्व त्याग करने अथवा थर्ड पार्टी हित का निर्माण करने अथवा व्यवसाय करने से निषिद्ध किया जाता है। कृपया ध्यान रखें कि उसका किसी भी रूप में उल्लघंन करने पर एक वर्ष तक की अवधि का कैद अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

कि, कृपया ध्यान रहे कि यह वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत अंतिम सूचना है। यह कहना आवश्यक नहीं है कि एबीएचएफएल को पुरी तरह से आपकी जोखिम, उत्तर दायित्व एवं लागतों पर आप एड्रेसी के विरुद्ध उपरोक्त किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

तिथि: 28.07.2021 स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश V नियम 20 के साथ वित्तियों आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्गिर्माण और सुरक्षा हित

1. गिरीश चन्दर जोशी (प्रतिवादी सं. 1)

मकान सं. 2044 गली नं. 56-बी मोलरबंद एक्स्टें., मोलरबंद दिल्ली-110044

जैसा कि **मै. थ्री सी युनिवर्सल डेवलपर्स प्रा.लि**. के प्रस्ताव कर्मी राकेश कुमार गुप्ता ने

तिथि : 27.7.2021 राकेश कुमार गुप्ता

मै. थ्री सी यूनिवर्सल डेवलपर्स प्रा. लि. के प्रस्ताव कर्मी

#### स्थान : हरियाणा, विनांक : 28,07,2021 क्लिक्स कैपिटल सर्विसेज प्रा. लि.

CLIX CAPITAL SERVICES PVT. LTD

प्रवर्तन अधिनियम 2002, की धारा 13(2) के तहत सूचना

अधोहस्ताक्षरी क्लिक्स कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

(भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विधिवत पंजीकत) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय

परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण और पनिर्माण और सरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (2002 की 54)

के प्रावधान के तहत (इसके बाद "सरफेसी अधिनियम, 2002" के रूप में संदर्भित) जिसका

पंजीकृत कार्यालय चौथी मॉजल, कैलाश भवन, कस्तुरबा गांधी मार्ग, कनॉट प्लेस, नः दिल्ली-110001 (इसके बाद "CLIX" के रूप में संदर्भित) हैं, के व्यवसाय में संलग्न पूरे भारत में

अपने लाखों ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तिय सहायता प्रदान करते हुए, आपको

. **सनराइज बाल उत्थान शिक्षा समिति/सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कल,** वीपीओ मंगल

चौधरी, तहसील नारनौल, जिला महेंद्रगढ्, हरियाणा-123023, **2, श्री विक्रम सिंह** पुत्र

श्री कृष्णा, 724, ग्राम जलपोरा, सिरोही, बहली (227), जिला महेंद्रगढ, हरियाणा-123023

3. श्री कष्णा पत्र रुड मल, सिरोही, बहली (227), जिला महेंद्रगढ्, हरियाणा-123023

हरियाणा-123023, **5. श्रीमती सावित्री** पत्नी अनुप कुमार, वार्ड नं. 2, राज ऑयल कंपनी,

कैलाश नगर, रेवाडी रोड, नारनौल, जिला महेंद्रगढ, हरियाणा-123001, 6, श्री अनूप सिंह

**यादव** पुत्र निशाल सिंह यादव, वार्ड नं. 2, राज ऑयल कंपनी, कैलाश नगर, रेवाडी रोड,

सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार माँग तिथि व राशि

07.06.2021 को रू. 1,71,93.678.52 (रुपये एक करोड़ इक्टत्तर लाख तिरानवे हजार छ: सौ

मीजा–मोमन, तहसील नंगल चौधरी, जिला नारनौल, हरियाणा में स्थित खेवट नं. 183, मस्टेल

इसके अलावा हमें विश्वास है कि आप माँग सूचना लेने से बच रहें हैं। अत: इस माँग सूचना के

प्रकाशन द्वारा आपको सुचना के प्रकाशन के 60 दिन के भीतर क्लिक्स कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट

लिमिटेड को बकाया देवें राशि. आगे का ब्याज चार्ज व अन्य आकस्मिक शल्क आदि का भगतान

करें। और यदि आप भगतान में असफल रहे तो बिलक्स कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड धारा

13(4)के प्रावधान के अधीन आवश्यक कार्यवाई करेगें तथा नियम की धारा 13(13) के अंतर्गत

आप सरक्षित सम्पत्तियों का लेन देन व किसी अन्य प्रकार से इस्तांतरण से भी प्रतिबंधित है। कृपया

नं. 9, किला नं. 5/2(4-0) कुल 04 कनाल में स्कुल भूमि और भवन के सभी भाग।

एनपीए की तिथि : 31.03.2021

प्राधिकत अधिकारी

श्रीमती कृष्णा देवी, 256, ग्राम जलपोरा, सिरोही, बहली (227), जिला महेंद्रगढ

निम्नलिखित नोटिस जारी करता है:-

उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर के नाम व पता :

नारनौल, जिला महेंद्रगढ, हरियाणा-123001

सूचना 13(2) की तिथि : 10.06.2021

ध्यान दें कि आगे कोई मांग सुचना जारी नहीं की जाएगी।

अठत्तर व बावन पैसे केवल)

बंधक सम्पत्ति :

MOREPEN LABORATORIES LIMITED (CIN: L24231HP1984PLC006028)

Regd. Off.: Morepen Village, Nalagarh Road,

Near Baddi, Distt. Solan, H.P. - 173 205 Tel.: +91-1795-266401-03, 23712025, Fax: +91-1795-244591

Website: www.morepen.com, E-mail: investors@morepen.com

NOTICE FOR COMPLETION OF PROCESS OF SURRENDER OF EQUITY SHARES FOR CANCELLATION AND REFUND OF FIXED DEPOSIT DUES PURSUANT TO ORDER DATED 12.3.2018 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL COMPANY

LAW TRIBUNAL, CHANDIGARH We invite attention towards our previous notices dated 13.8.2019 and 27.7.2020 published on 15.8.2019 and 27.7.2020, respectively, in 'Financial Express' and 'Jansatta', wherein the company had informed all the eligible fixed deposit holders to surrender their equity shares for cancellation and receive the refund of their fixed deposit dues along-with interest thereon as per Scheme dated 19.8.2003, in accordance with the order passed by

12.3.2018. The company has paid entire fixed deposit dues to all eligible fixed deposit holders who had approached the Company and submitted requisite documents/information up-to 27.7.2021.

Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh dated

In view of the above and sufficient opportunity given to the eligible FD holders, the Board of Directors of the Company are of the view that the process of surrender of equity shares for cancellation and refund of fixed deposit dues is now complete and the Board informs through this notice to all the concerned persons that the Company has repaid all the eligible FD holders who have submitted their shares for cancellation in compliance with aforesaid order.

In case of any query, please write to us at fixeddeposit@ morepen.com For Morepen Laboratories Limited

Date: 27/07/2021 Place: New Delhi

**Authorized Signatory** 

# सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32 एवं 33 के तहत) प्रासंगिक विवरण

1. कार्पोरेट देनदार का नाम ग्लोबल इन्फोनेट डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 2. कार्पीरेट देनदार के निगमन की तिथि 3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पीरेट देनदार रजिस्टार ऑफ कम्पनीज-दिर्ल्ल

निगमित/पंजीकृत है 4. कार्पीरेट देनदार की कार्पीरेट पहचान U51101DL2007PTC17187 संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या

5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा पंजीकृत कार्यालय : सी-143, ओखला इंडस्ट्रियल प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता एइरया, फेज-1, दिल्ली-110020 6. कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन प्रारम्भ होने 21 अगस्त, 2020

7. परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, नाम : योगेन्दर पाल सिंघल दरभाष नम्बर तथा पंजीकरण संख्या आईबीबीआई सहित पंजीकत पता : बी-292, अपर

ग्राउण्ड फ्लोर, प्रशान्त विहार, सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-110085 पंजीकृत ई-मेल पता ipyogendersinghal@gmail.com

मोबाइल : +91 98107 84484 पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001 /I P-P00492/2017-18/10880 सम्पर्क पता : बी-292, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, प्रशान्त

विहार, सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-110085 सम्पर्क ई-मेल पता : lrp.globalinfonet@gmail.com नीलामी प्रारम्भ होने की तिथि एवं समय : 12 अगस्त,

 ई-नीलामी की तिथि 2021 को 11:00 बजे पूर्वा. नीलामी समाप्ति की तिथि एवं समय : 12 अगस्त, 2021 को 5.30 बजे अप.

9. प्रक्रिया दस्तावेज प्राप्त करने की रीति नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत नियम एवं शर्तें प्रक्रिया दस्तावेज में निर्धारित हैं, जिसे संविदाकार द्वारा irp.globalinfonet@gmail.com, nclt@auctiontiger.net पर ई-मेल निवेदन भेजकर

प्राप्त किया जा सकता है। 10. आवेदन प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 10 अगस्त. 2021 11. नीलामी प्रक्रिया का विषयगत मामला आईटी उत्पादों (हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर), तथा प्रिंटर एवं इसके एसेसरीज की बिक्री।

12. संविदा जमा करने की रीति जैसा कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापक द्वारा प्रक्रिया दस्तावेज में निर्धारित है। बिक्री का माध्यम खली ई-निविदा है जहाँ संविदाकार 13. बिक्री का माध्यम

ओपन विंडो के दौरान अन्य संविदाकार से अन्य प्रतिस्पर्द्धी बोलियाँ देख सकते हैं। कॉरपोरेट देनदार के आईटी उत्पादों (हार्डवेयर एवं

सॉफ्टवेयर), प्रिंटर एवं इसकी एसेसरीज का अधिग्रहण कॉरपोरेट देनदार अथवा परिसमापक द्वारा 'जहाँ है जैसे

है', बिना किसी प्रतिनिधान, वारंटी या इंडेम्निटी के किया जायेगा। इस ई-नीलामी के संचालन के उद्देश्य से आरक्षित 14. आरक्षित मूल्य मुल्य निम्नवत निर्धारित होगा : (क) दिल्ली हेतु : रु. 42.50 लाख

(ख) चेन्नई हेतु : रु. 30.00 लाख संविदाकारों को निम्नलिखित जमा धरोहर राशि जमा 15. अपेक्षित जमा धरोहर राशि करनी अपेक्षित होगी : (क) दिल्ली में स्थित स्टॉक हेत् रु. 4.3 लाख

(ख) चेन्नई में स्थित स्टॉक हेतु रु. 3 लाख उपर्युक्त आस्तियों के अधिग्रहण हेतु बोली के क्रम में। नोट : इसमें निहित कुछ भी कॉरपोरेट देनदार की आस्तियों की बिक्री हेतु किसी बाध्यकारी प्रस्ताव

संविदाकार ध्यान दें कि उपर्युक्त ई-नीलामी प्रक्रिया ऋणशोध अक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 ('संहिता') तथा उसके तहत प्रासंगिक विनियमों के अनुसार संचालित की जा रही है। प्रयोज्य विनियमों के साथ पठित संहिता की धारा 53 के सन्दर्भ में वर्तमान प्रभार धारक द्वारा कॉरपोरेट देनदार की किसी आस्तियों की वसली के मामले में. इसे जब प्रासंगिक प्रभार धारक द्वारा जब भी कोई ऐसा विकल्प चुना जायेगा तो परिसमापक द्वारा संचालित नीलामी प्रक्रिया की परिधि से यह बाहर होगा। परिसमापक को किसी भी समय किसी भी परिप्रेक्ष्य में बिना कोई कारण बताए इस आमन्त्रण के

कृते ग्लोबल इन्फोनेट डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड प्रत्येक प्रकार से पूर्ण संविदाएं केवल ऑनलाइन 02.09.2021 को 4.00 बजे अप. तक या इससे पूर्व जमा की जानी हैं। ई-नीलामी का समय 03.09.2021 को 3.00 बजे से 4.00 बजे अप. होगा। बैंक अधिकारियों का सम्पर्क विवरण

संशोधन तथा/अथवा निरस्त करने का अधिकार सरक्षित है।

अथवा प्रतिबद्धता को नहीं निर्मित करेगा।

योगेन्दर पाल सिंघल

ऋणशोधन अक्षमता प्रोफेशनल

पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001 /I P-P00492/2017-18/10880 **पंजीकृत कार्यालय** : बी-292, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, प्रशान्त विहार, सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-

पंजीकृत ई-मेल पता: ipyogendersinghal@gmail.com सम्पर्क पता : बी-292, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, प्रशान्त विहार, सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-110085

Chandigarh

स्थान : दिल्ली

तिथि : 27 जुलाई, 2021